

प्रेस नोट दिनांक-30.07.2022

(1). आज दिनांक-30.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(2). दिनांक-29.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(3). आज दिनांक 30.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). आज दिनांक-30.07.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द, श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार के जनपद आगमन के दृष्टिगत वीवीआईपी डियूटी में लगे पुलिस बल की ब्रीफिंग की गयी। ब्रीफिंग के दौरान महोदय द्वारा सभी वीवीआईपी डियूटी में लगे पुलिस बल को सतर्कता पूर्वक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री कुंवर बहादुर सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था, उपजिलाधिकारी सदर श्रीमती पूजा यादव, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री राजकमल समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक, जनपद चित्रकूट से VVIP डियूटी में लगे पुलिस बल के साथ बाह्य जनपदों से आये अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।